

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 27 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018—आषाढ़ 15, शक 1940

---

### भाग 4

भाग 4 ( क )—निरंक

भाग 4 ( ख )—निरंक

भाग 4 ( ग )—निरंक